

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 1969/अग्रहायण 3, 1891

No. 184]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 1969/AGRAHAYANA 3, 1891

इस भाग में पृथक् पृष्ठ संख्या दी गयी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(अर्थ विभाग)

(Department of Economic Affairs)

संकल्प

RESOLUTION

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1969

New Delhi, the 24th November 1969

संख्या एक० 3 (47) बी०/69,—
1969-70 का वार्षिक वित्तीय विवरण
जैसा कि 28 फरवरी, 1969 को संसद के
सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, अब सामान्य
जानकारी के लिए अन्तिम रूप में प्रकाशित
किया गया है।

No. F. 3(47)-B/69.—The Annual Financial Statement for 1969-70 as presented
to the Parliament on the 28th February, 1969 is now published in its final form
for general information.

2. वित्त विधेयक 1969 में किये गये
परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय राजस्व
में 3,83,00,000 रुपये की जो कमी हो
जायगी, उसका व्यौरा इस प्रकार है.—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (-) 4,93,00,000
घटाइये—केन्द्रीय उत्पादन
शुल्कों में होने वाली कमी
में राज्यों का हिस्सा (+) 1,10,00,000

2. As a result of the modifications in the Finance Bill, 1969, the Central Re-
venue will be reduced by Rs. 3,83,00,000 as detailed below:—

Union Excise Duties

(—) 4,93,00,000

Less—States' share in the reduction of
Union Excise Duties

(+) 1,10,00,000

केन्द्रीय राजस्व में होने

बाली वास्तविक

कमी

(-) 3,83,00,000

Net reduction in Central Revenues

(—) 3,83,00,000

3. 1969-70 की अनुदानों की मांगें बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर ली गयी थीं।

3. The Demands for Grants for 1969-70 were voted without modification.

4. इस प्रकार राजस्व खाते का अधिशेष 36,35,81,000 रुपये हो जायगा और कुल मिलाकर 2,53,68,00,000 रुपये का घाटा होगा।

4. The surplus on revenue account will thus stand at Rs. 36,35,81,000 and the overall deficit will stand at Rs. 2,53,68,00,000.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



केन्द्रीय सरकार
का
1969-70
का
बजट
B U D G E T
OF THE
CENTRAL GOVERNMENT
FOR
1969-70

(जैसा कि अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया)
(As finally adopted)

वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1969
MINISTRY OF FINANCE,
New Delhi, the 24th November, 1969

द्वि० पी० सिंह,
सचिव, भारत सरकार
T. P. Singh,
Secretary to the Government of India

विषय-सूची

CONTENTS

- I.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का सामान्य
विवरण
II.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का विस्तृत
विवरण

- I.—General Statement of Receipts and Disburse-
ments of the Central Government
II.—Detailed Statement of Receipts and Disburse-
ments of the Central Government

PAGES

2—9

10—41

—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND RECEIPTS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ	अधारे के लिए विवरण देखिए	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	For details vide Statement	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	1969-70 Budget Estimate, 1969-70
—भारत की समेकित निधि—					
I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—					
राजस्व प्राप्तियाँ—					
REVENUE RECEIPTS—					
कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक—					
TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE—					
					II
सीमा-शुल्क	Customs	5,13,34,79	5,39,27,00	4,45,00,00	{ 4,26,00,00 + 9,20,00
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	Union Excise Duties	11,48,52,32	12,79,24,00	13,20,45,00	{ 14,21,63,00 + 99,64,00 — 23,52,00@
निगम-कर	Corporation Tax	3,10,33,07	3,20,35,00	3,22,00,00	{ 3,30,00,00 — 3,80,00'
निगम-कर से अलग आय-सम्बन्धी कर	Taxes on Income other than Corporation Tax.	1,51,10,36	1,63,15,49	1,43,49,41	{ 1,62,92,97 + 14,80,00
मृत-सम्पत्ति-शुल्क	Estate Duty	—21,55	68,70	1,46,14	39,38
सम्पत्ति-कर	Taxes on Wealth	10,67,01	11,00,00	11,00,00	12,00,00
व्यय-कर	Expenditure Tax		8	3,00	1,00
दान-कर	Gift Tax	1,29,73	1,75,00	1,75,00	1,50,00
अन्य शीर्षक	Other Heads	36,25,33	38,90,94	44,54,46	48,16,96
जोड़—कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक	TOTAL—TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE	21,71,31,14	23,54,39,13	22,89,73,01	{ 24,02,63,31 + 96,32,00*
घाटे-अ अधी सभी रकम	Carried Over	21,71,31,14	23,54,39,13	22,89,73,01	{ 24,02,63,31 + 96,32,03*

टिप्पणी—1967-68 का खाता अंतिम रूप से बन्द नहीं किया गया है और यहां जो वास्तविक आंकड़े दिये गये हैं वे अंतिम हैं।

NOTE.—The Accounts for 1967-68 have not been finally closed and the actuals given here are only provisional.

*विस्त अधिनियम, 1999 का प्रभाव।

*Effect of Finance Act, 1969

@केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में से राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा जो राजस्व में से घटा दिया गया है।

@ Share of Union Excise Duties payable to States which has been taken in reduction of Revenue.

भुगतानों का सामान्य विवरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हज़ारों रुपये में)

(In thousands of R)

	क्योरे के लिए विवरण देखिए For details vide Statement	वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
I.—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
राजस्व से किया जाने वाला व्यय—	EXPENDITURE MET FROM REVENUE—				
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRIN- CIPAL REVENUES . II	53,19,74	39,90,07	40,10,79	44,39,52
ऋण—व्यवस्था	DEBT SERVICES . ,	5,01,43,18	5,50,32,13	5,27,69,08	5,68,81,85
प्रशासनिक सेवाएं	ADMINISTRATIVE SERVICES ,	1,86,48,50	1,40,40,84	1,52,82,25	1,64,83,06
सामाजिक और विकास—सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOP- MENTAL SERVICES ,	2,19,05,58	2,52,17,23	2,41,38,96	2,72,32,57
बहुप्रयोजना नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES ,	3,33,79	7,85,41	8,95,20	11,28,91
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	8,95,50,79	9,86,35,68	9,64,96,28	10,54,95,91

I — केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियाँ
I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND
(हजारों रुपये में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	व्योरे के लिये विवरण देखिये	वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		For details vide Statement	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—					
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	II	21,71,31,14	23,54,39,13	22,89,73,01	24,02,63,31 +96,32,00*
भूत-सम्पत्ति	DEBT SERVICES	"	4,25,37,98	4,49,18,71	4,96,03,25	5,40,07,06
प्रशासनिक सेवाएं	ADMINISTRATIVE SERVICES	"	10,21,65	10,00,45	9,78,11	9,79,45
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	"	29,88,01	25,95,23	30,47,08	30,17,50
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	"	1,82,85	1,96,76	1,04,79	3,74,90
शोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS	"	6,23,41	5,86,57	6,46,78	7,50,42
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	"	10,50,63	11,37,47	11,87,74	12,69,68
मुद्रा और टकसाल	CURRENCY AND MINT	"	78,92,54	86,05,00	87,18,62	94,93,36
विविध	MISCELLANEOUS	"	31,54,49	22,49,43	26,18,81	27,41,03
संशयान और विविध समायोजन (रेलों तथा डाक और तार के प्रशासनों से भिन्न)	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS (OTHER THAN CONTRIBUTIONS FROM RAILWAYS AND P.&T.)	"	10,13,44	10,83,13	12,10,17	12,53,59
रेलों का प्रशासन	CONTRIBUTIONS FROM RAILWAYS	"	30,29,91	30,52,01	29,31,57	30,26,99
डाक और तार का प्रशासन	CONTRIBUTIONS FROM POSTS AND TELEGRAPHS	"	5,55,08	3,11,97	2,68,25	2,99,61
प्रसाधारण मदें	EXTRAORDINARY ITEMS	"	8,12,00	15,54,02	36,72,39	27,60,02
ग्रोस—राजस्व प्राप्तियाँ	TOTAL—REVENUE RECEIPTS		28,19,93,13	30,27,29,88	30,39,60,57	32,02,36,92 +96,32,00*
राजस्व से व्यय की अधिकता अर्थात् शून्य	EXCESS OF EXPENDITURE OVER REVENUE OR DEFICIT		..	..	..	..
नोट	TOTAL		28,19,93,13	30,27,29,88	30,39,60,57	32,98,68,92

वित्त अधिनियम, 1969 का प्रभाव ।

*Effect of Finance Act, 1969

ग्रीर भगतानों का सामान्य विवरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भगतान

DISBURSEMENTS

(हजारों रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

	अधोरे के लिए विवरण देखाए	वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट प्रनुमान 1968-69	संशोधित प्रनुमान 1968-69	बजट प्रनुमान 1969-70	
	For details vide Statement	Accounts 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate 1969-70	
I-भारत की समेकित निधि—						
आगे लायी गयी रकम	CONSOLIDATED FUND OF INDIA— Brought Forward	II	8,95,50,79	9,86,35,68	9,64,96,28	10,54,95,91
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS	„	23,87,11	32,08,84	36,38,93	37,93,35
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMU- NICATIONS (OTHER THAN ROADS)	„	16,24,45	12,82,16	14,48,43	17,33,00
मुद्रा और टकसाल	CURRENCY AND MINT	„	22,78,56	24,45,02	24,99,13	26,43,72
विविध	MISCELLANEOUS	„	1,72,07,18	1,82,37,05	2,03,57,61	2,26,69,36
प्रशदान और विविध समायोजन	CONTRIBUTIONS AND MIS- CELLANEOUS ADJUSTMENTS	„	7,14,3,77	7,52,36,67	8,36,61,91	9,07,31,16
प्रसाधारण भवें	EXTRAORDINARY ITEMS	„	8,90,56	11,46,74	11,32,04	5,88,61
रक्षा सेवाएं (क)	DEFENCE SERVICES(a)	„	8,62,21,16	8,94,46,00	9,43,63,42	9,85,78,00
जोड़—राजस्व से किया जाने वाला व्यय	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE	„	27,15,94,58	28,96,38,16	30,35,97,75	32,62,33,11
व्यय से राजस्व की अधिकता अर्थात् अधिशेष	EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURE OR SUR- PLUS	„	1,30,98,55	1,30,91,72	3,62,82	36,35,81
जोड़	TOTAL		28,19,93,13	30,27,29,88	30,39,60,57	32,98,68,92

(क) शुद्ध आंकड़े, प्राप्तियां व्यय में से घटा दी गयी हैं।

(a) Figures shown net; the receipts have been deducted.

वित्त अधिनियम 1969 का प्रभाव।

*Effect of Finance Act, 1969.

I—केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों और

I—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

RECEIPTS

(हजारों रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ

	ब्योरे के लिए विवरण देखिये	वास्तविक प्राप्तिया 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
	For details vide Statement	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I.—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
राजस्व अघिशेष (जैना कि पृष्ठ 7 पर दिखाया गया है)	REVENUE SURPLUS (As SHOWN IN PAGE 7)	1,03,98,55	1,30,91,72	3,62,82	36,35,81
राजस्व खाते से बाहर की पूंजीगत प्राप्तियाँ	CAPITAL RECEIPT OUT- SIDE REVENUE AC- COUNT II	..	..	..	..
सरकारी ऋण —	PUBLIC DEBT—				
स्थायी ऋण—	PERMANENT DEBT—				
भारत में लिया जाने वाला ऋण	Debt raised in India. "	4,27,04,22	3,00,70,00	3,96,21,37	5,00,25,00
भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	Debt raised outside India	7,88,93,16	10,19,00,00	8,68,54,39	8,50,00,04
अस्थायी ऋण—	FLOATING DEBT—				
राजकोष ऋण्डिया (शुद्ध)	Treasury Bills (net).	89,86,25	2,90,00,00	1,71,00,00	2,53,00,00
अन्य अस्थायी ऋण (शुद्ध)	Other Floating Debt (net)	53,00	1,48,75	—1,72,00	1,48,00
ऋणों और अग्रिमों का परिशोधन	REPAYMENT OF LOANS AND ADVANCES—				
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारें	State and Union Terri- tory Governments "	3,78,04,04	4,25,00,00	5,75,00,00	5,40,00,00
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances "	1,16,40,14	1,24,00,00	1,60,00,00	2,05,00,00
अन्तर्राज्यीय निपटारा	INTER-STATE SETTLE- MENT "	17,09	..	14,33	..
जोड़—भारत की समेकित निधि—	TOTAL—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over .	19,04,96,45	22,91,10,47	21,72,80,91	23,86,08,85

भगतानों का सामान्य विवरण—आरी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भगतान

DISBURSEMENTS

(हजारों रुपये में)

(In thousands of Rupees)

आरो के लिए विवरण देखिए	वास्तविक भगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

For details
vide
StatementAccounts,
1967-68Budget
Estimate,
1968-69Revised
Estimate,
1968-69Budget
Estimate,
1969-70

I—भारत की समेकित निधि—

I.—CONSOLIDATED
FUND OF INDIA—
Revenue Deficit (as
shown in Page 4)राजस्व की कमी (जो पृष्ठ 4 पर दिखाई
गई है)राजस्व से न किया जाने वाला पूंजीगत
व्ययसामाजिक और विकास-सम्बन्धी सेवाएं
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और
बिजली योजनाएंलोक-निर्माण कार्य (सड़कों सहित)
और लोक-निर्माण सम्बन्धी
सुधार की विविध योजनाएं

परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)

मुद्रा और टकसाल

विविध

रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय

रेलों की पूंजी (जो रेलों के बजट में दिखायी
गयी है)

डाक और तार

जोड़—राजस्व से न किया जाने वाला
पूंजीगत व्यय

ऋण परिशोधन

स्थायी ऋण

भारत से लिया जाने वाला ऋण

भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण

केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले
ऋण और अधिम—राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारें
अन्य ऋण और अधिम

अन्तर्राष्ट्रीय निपटारा

जोड़—1 भारत की समेकित निधि

आगे ले जायी गयी रकम

CAPITAL ACCOUNT NOT
MET FROM REVENUE—SOCIAL AND DEVELOP-
MENTAL SERVICES
MULTIPURPOSE RIVER
SCHEMES, IRRIGA-
TION AND ELECTRI-
CITY SCHEMESPUBLIC WORKS (INCLUD-
ING ROADS) AND SCHE-
MES OF MISCELLANEOUS
PUBLIC IMPROVE-
MENTSTRANSPORT AND COM-
MUNICATIONS (OTHER
THAN ROADS)

CURRENCY & MINT

MISCELLANEOUS

DEFENCE CAPITAL
OUTLAYRAILWAY CAPITAL (AS
SHOWN IN THE RAIL-
WAY BUDGET)

POSTS AND TELEGRAPHS

TOTAL—CAPITAL
ACCOUNT NOT MET
FROM REVENUE

REPAYMENT OF DEBT—

PERMANENT DEBT—

Debt raised in India

Debt raised outside
IndiaLOANS AND ADVANCES
BY CENTRAL GOV-
ERNMENT—State and Union Terri-
tory GovernmentsOther Loans and Ad-
vancesINTER-STATE SETTLE-
MENTTOTAL—I—CONSOLI-
DATED FUND OF
INDIA
Carried over

II

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

1,83,23,72

19,51,68

57,38,80

6,80,56

14,29,59

2,66,76,17

1,06,21,84

1,35,92,77

26,44,49

8,91,94,41

4,71,82,60

26,27,18,68

2,36,92,31

24,08,99

69,09,00

16,29,25

14,05,08

1,06,77,39

1,20,80,00

1,43,00,00

30,45,54

8,55,68,17

4,60,73,66

25,16,77,66

2,50,82,71

26,91,43

61,25,47

17,43,48

13,41,65

-90,71,52

1,07,75,26

1,34,09,03

30,44,75

9,15,16,06

5,94,26,68

24,77,27,41

3,40,86,10

58,25,48

75,88,5

25,54,56

6,27,50

-28,22,95

1,24,22,00

1,32,60,00

34,16,41

7,93,74,23

4,56,59,91

26,28,02,43

I.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और 1.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)				
		ब्योरे के लिये विवरण देखिये For details vide Statement	वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
प्रागे लायी गयी रकम	Brought Forward		19,04,96.45	22,91,10.47	21,72,80.91	23,86,08.85
II—भारत की आकस्मिकता निधि	II.—CONTINGENCY FUND OF INDIA	II	2,50	..	58.72	..
III—सार्वजनिक खाता	III.—PUBLIC AC- COUNT—					
अनिविद्ध ऋण—	UNFUNDED DEBT—					
छोटी बचतें (शुद्ध) @	Small Savings (Net)@	"	1,23,40.81	1,20,20.00	1,25,20.00	1,35,25.00
राज्य भविष्य निधियाँ (शुद्ध)	State Provident Funds (Net)	"	75,42.47	33,74.90	47,25.34	62,70.63
लोक भविष्य निधि	Public Provident Fund	"	..	10,00.00	2,00.00	5,00.00
भायकर वार्षिकी जमा (शुद्ध)	Income Tax Annuity Deposits (Net)	"	34,49.64	—9,00.00	—4,00.00	—10,25.00
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (Net)	"	—38.65	—25.00	—25.00	—25.00.00
अमरीकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S. Government Counterpart Funds (Net)	"	93,56.00	25,00.00	—59,55.00	40,11.00
अन्य मदें (शुद्ध)	Other Items (Net)	"	25,84.33	1,69.36	—21,88.59	—9,57.64
जोड़	TOTAL		3,52,34.60	1,81,39.26	88,76.75	1,98,23.99
जमा और अग्रिम	DEPOSITS AND ADVANCES—					
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियाँ (शुद्ध)	Depreciation and other Reserve Funds (Net)	"	..	21,63.78	13,69.68	27,42.35
ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिए विनियोग	Appropriation for Re- duction or Avoidance of Debt	"	5,00.00	5,00.00	5,00.00	5,00.00
अन्य जमा और अग्रिम (शुद्ध)	Other Deposits and Ad- vances (Net)	"	6,17,13.45	26,03.92	1,95,03.60	22,80.49
जोड़	TOTAL		6,22,13.45	52,67.70	2,13,73.28	55,22.84
प्रेषणाएँ (शुद्ध)	REMITTANCES (NET)	"	98,63.57	..	..	..
इंग्लैंड और भारत के बीच नकदी का अन्तरण (शुद्ध)	TRANSFER OF CASH BET- WEEN ENGLAND AND INDIA (NET)	"	..	..	..	..
जोड़—III—सार्वजनिक खाता	TOTAL—III—PUBLIC ACCOUNT		10,73,11.62	2,34,06.96	3,02,50.03	2,53,46.83
जोड़ — प्राप्तियाँ	TOTAL—RECEIPTS		29,78,10.57	25,25,17.43	24,75,89.66	26,39,55.68
पूर्व-शेष	Opening Balance		1,05,99.82	51,06.91	64,56.86	50,90.36
जोड़	TOTAL		30,84,10.39	25,76,24.34	25,40,46.52	26,90,46.04

@टिप्पणी—इसमें "सरकारी ऋण" में सम्मिलित वार्षिकी-पत्र शामिल नहीं हैं।

@NOTE.—Excludes Annuity Certificates included under "Public Debt"

भुगतानों का सामान्य विवरण—समाप्त

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—concl'd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
	व्योरे के लिए विवरण देखिये	वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
	For details vide Statement	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	26,27,18,68	25,16,77,66	24,77,27,41	26,28,02,43
II—भारत की आकस्मिकता निधि	II.—CONTINGENCY FUND OF INDIA	58,72	..	..	..
III—सार्वजनिक खाता—	III.—PUBLIC AC- COUNT—				
जमा और अधिम	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां (शुद्ध)	Depreciation and other Reserve Funds (Net)	.. 3,57,45,96	..	..	..
अन्य जमा और अधिम (शुद्ध)	Other Deposits and Advances (Net)		..	..	..
जोड़	TOTAL	3,57,45,96	..	..	..
प्रेषणाएं (शुद्ध)	REMITTANCES (NET)]		7,66,77	12,28,75	12,21,25
इंग्लैण्ड और भारत के बीच नकदी का अंतरण (शुद्ध)	Transfer of cash between England and India (Net)	34,30,17	..	..	..
रिजर्व बैंक में जमा (शुद्ध)	RESERVE BANK DEPOSITS (NET)		..	..	..
जोड़—III—सार्वजनिक खाता	TOTAL—III—PUBLIC ACCOUNT	3,91,76,13	7,66,77	12,28,75	12,21,25
जोड़—भुगतान	TOTAL—DISBURSEMENTS	30,19,53,53	25,24,44,43	24,89,56,16	26,40,23,68
इति शेष	Closing Balance	64,56,86	51,79,91	50,90,36	50,22,36
जोड़	TOTAL	30,84,10,39	25,76,24,34	25,40,46,52	26,90,46,04

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियाँ II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68	बजट प्रनुमान 1968-69	संशोधित प्रनुमान 1968-69	बजट प्रनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक—	TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE—				
I—सीमा-शुल्क	I.—Customs	5,13,34.79	5,39,27.00	4,45,00.00	4,35,20.00
II—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	II.—Union Excise Duties	11,48,52.32	12,79,24.00	13,20,45.00	14,97,75.00
III—निगम-कर	III.—Corporation Tax	3,10,33.07	3,20,35.00	3,22,00.80	3,26,20.00
IV—निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	IV.—Taxes on Income other than Corporation Tax	1,51,10.36	1,63,15.49	1,43,49.41	1,77,72.97
V—मृत-सम्पत्ति-शुल्क	V.—Estate Duty	—21.55	68.70	1,46.14	39.38
VI—सम्पत्ति-कर	VI.—Taxes on Wealth	10,67.01	11,00.00	11,00.00	12,00.00
VII—व्यय-कर	VII.—Expenditure Tax	8	3.00	3.00	1.00
VIII—दान-कर	VIII.—Gift Tax	1,29.73	1,75.00	1,75.00	1,50.00
IX—भू-राजस्व	IX.—Land Revenue	13.38	18.33	30.75	20.04
X—राज्य उत्पादन-शुल्क	X.—State Excise Duties	3,74.21	3,96.60	4,66.49	4,94.18
XI—गाड़ियों पर कर	XI.—Taxes on Vehicles	1,54.84	1,60.91	1,67.02	1,81.02
XII—बिक्री-कर	XII.—Sales Tax	19,01.87	21,07.28	23,27.96	25,95.72
XIII—अन्य कर और शुल्क	XIII.—Other Taxes and Duties	5,51.26	6,21.41	8,05.64	8,49.32
XIV—स्टाम्प	XIV.—Stamps	6,15.40	5,68.20	6,42.99	6,60.87
XV—रजिस्ट्री फीस	XV.—Registration Fees	14.37	18.21	13.61	15.81
कोड़—कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक	TOTAL—TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE	21,71,31.14	23,54,39.13	22,89,73.01	24,98,95.31
शून्य-व्यवस्था—	DEBT SERVICES—				
XVI—ब्याज—	XVI.—Interest—				
राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों से ब्याज	Interest from State and Union Territory Governments	2,00,01.86	2,05,00.00	2,27,00.00	2,49,00.00
रेलों से ब्याज	Interest from Railways	1,11,23.06	1,21,48.24	1,22,01.96	1,28,74.20
नाक और तार से ब्याज	Interest from Posts and Telegraphs	12,44.00	9,69.65	9,27.98	10,17.35
अन्य वाणिज्यिक विभागों से ब्याज	Interest from Other Commercial Departments	6,57.84	1,13,00.82	1,37,73.31	1,52,15.51
अन्य ब्याज प्राप्तियाँ	Other Interest Receipts	95,11.22			
कोड़—शून्य-व्यवस्था	TOTAL—DEBT SERVICES	4,25,37.98	4,49,18.71	4,96,03.25	5,40,07.06
भरगे ले जायी गयी रकम	Carried over	25,96,69.12	28,03,57.84	27,85,76.26	30,39,02.37

और भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह—	COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES—				
1—सीमा-शुल्क	1.—Customs	5,40,86	6,92,28	6,89,05	8,29,22
2—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	2.—Union Excise Duties	12,48,73	13,19,96	12,90,14	13,27,15
3—निगम-कर	3.—Corporation Tax	..	2,50,52	2,69,92	3,28,88
4—निगम-कर से भिन्न आय-सम्बन्धी कर	4.—Taxes on Income other than Corporation Tax	11,94,03	10,01,96	10,79,64	12,75,82
5—मृत-सम्पत्ति-शुल्क	5.—Estate Duty	..	14,93	14,41	18,29
6—सम्पत्ति-कर	6.—Taxes on Wealth	..	24,85	22,66	26,80
7—व्यय-कर	7.—Expenditure Tax	..	18	6	7
8—दान-कर	8.—Gift Tax	..	3,48	3,61	3,65
9—भू-राजस्व	9.—Land Revenue	13,14	19,36	15,04	18,21
10—राज्य उत्पादन-शुल्क	10.—State Excise Duties	4,47	4,93	5,79	5,73
11—गाड़ियों पर कर	11.—Taxes on Vehicles	7,69	7,84	7,91	8,45
12—बिक्री कर	12.—Sales Tax	31,44	43,75	40,75	43,25
13—अन्य कर और शुल्क	13.—Other Taxes and Duties	37,63	37,02	38,80	41,48
14—स्टाम्प	14.—Stamps	4,40,25	5,37,31	5,31,25	5,30,59
15—रजिस्ट्री फीस	15.—Registration Fees	1,50	1,70	1,76	1,93
जोड़—करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	TOTAL—COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES	35,19,74	39,90,07	40,10,79	44,59,52
ऋण-व्यवस्था—	DEBT SERVICES—				
16—ऋण और अन्य देनदारियों पर व्याज	16.—Interest on Debt and Other Obligations	4,96,43,18	5,45,32,13	5,22,69,08	5,63,81,85
17—ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिए विनियोग	17.—Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,00
जोड़—ऋण व्यवस्था	TOTAL—DEBT SERVICES	5,01,43,18	5,50,32,13	5,27,69,08	5,68,81,85
प्राप्ति से जायी गयी रकम	Carried Over	5,36,62,92	5,90,22,20	5,67,79,87	6,13,41,37

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियां 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I — भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	25,96,69,12	28,03,57,84	27,85,76,26	30,39,02,37
प्रशासनिक सेवाएं—	ADMINISTRATIVE SERVICES—				
XVII—न्याय प्रशासन	XVII.—Administration of Justice.	43,02	42,11	47,48	50,57
XVIII—जेल	XVIII.—Jails . . .	4,44	4,94	4,03	27,17
XIX—गुप्तस	XIX.—Police . . .	1,08,96	74,83	1,00,81	91,26
XX—पूर्ति और निपटान	XX.—Supplies and Disposals . . .	6,73,10	6,93,20	5,35,99	6,41,94
XXI—विविध विभाग	XXI.—Miscellaneous Departments . . .	1,92,13	1,85,37	1,89,80	1,88,51
जोड़—प्रशासनिक सेवाएं	TOTAL—ADMINISTRATIVE SERVICES	10,21,65	10,00,45	9,78,11	9,79,45
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं—	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
XXII—शिक्षा	XXII.—Education . . .	1,16,62	97,19	1,08,92	1,03,54
XXIII—चिकित्सा	XXIII.—Medical . . .	1,14,13	91,50	1,02,57	1,08,74
XXIV—सोच-स्वास्थ्य	XXIV.—Public Health . . .	33,90	34,43	38,18	36,02
XXV—कृषि	XXV.—Agriculture . . .	2,66,40	2,45,80	2,28,38	2,43,45
XXVI—ग्राम-विकास	XXVI.—Rural Development . . .	..	..	..	..
XXVII—पशु-पालन	XXVII.—Animal Husbandry . . .	20,10	15,56	23,82	21,50
XXVIII—सहकारिता	XXVIII.—Co-operation . . .	1,92	2,14	2,74	2,72
XXIX—उद्योग	XXIX.—Industries . . .	2,95,88	2,57,10	2,22,13	2,07,44
XXX—प्रसारण	XXX.—Broadcasting . . .	13,40,25	11,61,05	13,32,29	15,47,14
XXXI—सामुदायिक विकास प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	XXXI.—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works . . .	3,08	1,74	1,34	1,18
XXXII—सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन	XXXII.—Miscellaneous, Social and Developmental Organisations . . .	7,95,73	6,88,72	9,86,71	7,45,77
जोड़—सामाजिक और विकास-सम्बन्धी सेवाएं	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES . . .	29,88,01	25,95,23	30,47,08	30,17,50
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over . . .	26,36,78,78	28,39,53,52	28,26,01,45	30,78,99,32

भगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बज अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	5,36,62,92	5,90,22,20	5,67,79,87	6,13,41,37
प्रशासनिक सेवाएं—	ADMINISTRATIVE SERVICES—				
18—संसद्, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल	18.—Parliament, State and Union Territory Legislatures	4,19,90	3,79,31	3,98,60	4,54,15
19—सामान्य प्रशासन	19.—General Administration	30,40,18	26,62,70	27,78,69	27,50,59
20—लेखा-परीक्षा	20.—Audit	16,38,62	17,60,17	18,19,47	20,14,04
21—न्याय प्रशासन	21.—Administration of Justice	77,41	74,39	75,93	84,11
22—जेल	22.—Jails	25,70	15,65	19,22	17,27
23—पुलिस	23.—Police	61,27,21	62,48,09	71,90,71	74,71,24
24—वैदेशिक कार्य	24.—External Affairs	13,07,28	13,03,37	14,15,45	20,68,41
25—पूति और निपटान	25.—Supplies and Disposals	4,47,34	4,54,09	4,58,57	4,63,00
26—विविध विभाग	26.—Miscellaneous Departments	5,64,86	11,43,07	11,25,61	11,60,25
जोड़—प्रशासनिक सेवाएं	TOTAL—ADMINISTRATIVE SERVICES	1,36,48,50	1,40,40,84	1,52,82,25	1,64,83,06
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	6,73,11,42	7,30,63,04	7,20,62,12	7,78,24,43

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—गरी	—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
प्रागे लायी गयी रकम	Brought Forward	26,36,78,78	28,39,53,52	28,26,01,45	30,78,99,32
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IR- RIGATION AND ELECTRICITY SCHE- MES—				
XXXII—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	XXXIII.—Multi-purpose River Sche- mes	22,61	8,11	9,51	8,83
XXXV—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जलनिकासी-नगरपाली निर्माण- कार्य (गैरवाणिज्यिक)	XXXV.—Irrigation, Navigation, Em- bankment and Drainage Works (Non-Commercial)	4,22	10	46	55
XXXVI—बिजली योजनाएं	XXXVI.—Electricity Schemes	1,56,02	1,88,55	94,82	3,65,52
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	TOTAL—MULTI-PURPOSE RIVER SCHE- MES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	1,82,85	1,96,76	1,04,11	3,74,90
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	26,38,61,63	28,41,50,28	28,27,06,24	30,82,74,22

भगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupee)			
		वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I-भारत की समेकित निधि—जारी	1.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,73,11,42	7,30,63,04	7,20,62,12	7,78,24,49
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएँ—	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
27—वैज्ञानिक विभाग	27.—Scientific Departments	50,28,34	60,47,92	55,99,30	64,41,22
28—शिक्षा	28.—Education	61,95,45	71,41,72	69,57,21	76,95,52
29—चिकित्सा	29.—Medical	12,94,56	14,29,82	13,83,42	15,41,69
30—लोक-स्वास्थ्य	30.—Public Health	6,10,75	11,44,04	9,53,29	11,84,78
31—कृषि	31.—Agriculture	16,20,58	21,53,92	18,24,44	23,57,93
32—ग्राम-विकास	32.—Rural Development	30	42	48	43
33—पशुपालन	33.—Animal Husbandry	1,52,51	2,06,25	1,75,95	2,13,54
34—सहकारिता	34.—Co-operation	5,06,73	2,32,50	2,32,22	2,28,20
35—उद्योग	35.—Industries	28,14,35	30,19,70	30,95,30	30,90,74
36—प्रसारण	36.—Broadcasting	8,31,32	9,18,80	9,98,25	10,67,92
37—सामुदायिक विकास आयोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	37.—Community Development Projects, National Extension Ser- vice and Local Development Works.	42,43	43,27	42,42	63,48
38—श्रम और नियोजन	38.—Labour and Employment	9,87,34	10,53,46	10,58,73	11,41,94
39—सामाजिक और विकास-सम्बन्धी विविध संगठन	39.—Miscellaneous Social and Deve- lopmental Organisations	18,17,09	18,21,95	18,15,03	21,97,27
40—राजस्व से किया जाने वाला औद्योगिक विकास सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	40.—Capital Outlay on Industrial Development met from Revenue	1,33	1,60	1,70	2,90
41—राजस्व खाते के अन्तर्गत प्रसारण सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	41.—Capital Outlay on Broadcasting within the Revenue Account	2,50	1,86	1,22	5,01
जोड़—सामाजिक और विकास-सम्बन्धी सेवाएँ	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	2,19,05,58	2,52,17,23	2,41,38,96	2,72,32,57
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	8,92,17,00	9,82,80,27	9,62,01,08	10,50,57,00

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I.—भारत की समेकित निधि—जारी		I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.			
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	26,38,61,63	28,41,50,28	28,27,06,24	30,82,74,22
लोक निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं—	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
XXXVII—लोक निर्माण-कार्य	XXXVII.—Public Works	6,23,41	5,86,57	6,46,78	7,50,42
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
XXXIX—बन्दरगाह और नौचालन	XXXIX.—Ports and Pilotage	86,81	48,15	52,55	55,55
XL—व्यापारिक समुद्री बेड़ा	XL.—Mercantile Marine	16,20	15,60	18,40	18,63
XLI—प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोल	XLI.—Lighthouses and Lightships	1,46,15	1,39,68	1,46,40	1,50,30
XLII—उड़ान	XLII.—Aviation	3,93,11	4,48,29	4,38,85	5,09,84
XLIII—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	XLIII.—Road and Water Transport Schemes	23,69	29,58	30,93	34,89
XLIV—समुद्रपारिय संचार सेवा	XLIV.—Overseas Communications Service	3,84,67	4,56,17	5,00,47	5,00,47
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNI- CATIONS (OTHER THAN ROADS)	10,50,63	11,37,47	11,87,74	12,69,68
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	26,55,35,67	28,58,74,32	28,45,40,76	31,02,94,32

भुगतानों के अन्तर्गत—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
प्रागे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,92,17,00	9,82,80,27	9,62,01,08	10,50,57,00
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं—	MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—				
42—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	42.—Multipurpose River Schemes	1,28,66	1,74,26	1,53,82	1,74,05
44—सिंचाई, नौ-परिवहन, नदबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवधारणजियक)	44. Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)	24,54	16,32	6,82	20,17
45—बिजली योजनाएं	45.—Electricity Schemes	1,80,59	1,64,83	1,34,56	2,44,69
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	TOTAL—MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	3,33,79	3,55,41	2,95,20	4,38,91
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधारों की विविध योजनाएं—	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
50—लोक-निर्माण-कार्य	50.—Public Works	22,62,97	30,86,80	35,16,74	36,74,51
52—राजस्व से किये जाने वाले लोक निर्माण-कार्यों का पूजा परियोजना	52.—Capital outlay on Public Works met from Revenue	1,24,14	1,22,04	1,22,19	1,18,84
जोड़—लोक-निर्माण कार्य	Total—Public Works	23,87,11	32,08,84	36,38,93	37,93,35
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)—	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
53—बन्दरगाह और नौचालन	53.—Ports and Pilotage	1,28,65	58,75	67,03	72,10
54—व्यापारिक समुद्री बेड़ा	54.—Mercantile Marine	1,80,89	2,36,46	2,48,26	2,95,76
55—प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	55.—Lighthouses and Lightships	1,47,58	1,39,40	1,39,42	1,44,00
56—उड्डयन	56.—Aviation	8,89,66	5,20,39	6,64,20	8,63,98
57—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	57.—Road and Water Transport Schemes	60,76	51,80	61,27	72,15
58—समुद्रपारिय संचार सेवा	58.—Overseas Communications	2,16,91	2,75,36	2,68,25	2,85,01
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	16,24,45	12,82,16	14,48,43	17,33,00
प्रागे ले जायी गयी रकम	Carried Over	9,35,62,35	10,31,26,68	10,15,83,64	11,10,22,26

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—STATEMENT OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां

RECEIPTS

		वास्तविक प्राप्तियां 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	26,55,35,67	28,58,74,32	28,45,40,76	31,02,94,32
मुद्रा और टकसाल—	CURRENCY AND MINT—				
XLV—मुद्रा और सिक्का-हलाई	XLV.—Currency and Coinage	76,38,75	82,77,07	83,82,61	91,53,23
XLVI—टकसाल	XLVI.—Mint	32,83	97,24	77,37	75,71
XLVI—क—कोलार की सोने की खान	XLVI.—A—Kolar Gold Mines	2,20,96	2,30,69	2,58,64	2,64,42
कुल—मुद्रा और टकसाल—	TOTAL—CURRENCY AND MINT	78,92,54	86,05,00	87,18,62	94,93,36
विविध—	MISCELLANEOUS—				
XLVIII—पेंशनों और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और बसुलियां	XLVIII.—Contributions and Recoveries towards Pensions and Other Retirement benefits	1,18,89	1,07,00	2,63,37	1,55,04
XLIX—लेखन-सामग्री और छपाई	XLIX.—Stationery and Printing	1,28,73	1,04,43	1,42,74	1,24,86
L—अफीम	L.—Opium	4,62,75	5,25,00	5,25,00	5,75,70
LI—वन	LI.—Forest	2,46,36	2,60,38	2,76,80	2,90,33
LII—विविध	LII.—Miscellaneous	21,97,76	12,52,62	14,10,90	15,95,10
कुल—विविध	TOTAL.—MISCELLANEOUS	31,54,49	22,49,43	26,18,81	27,41,03
अंशदान और विविध समायोजन	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS—				
LIII—रेलों का अंशदान	LIII.—Contributions from Railways	30,29,91	30,52,01	29,31,57	30,26,99
LIV—डाक और तार का अंशदान	LIV.—Contributions from Posts and Telegraphs	5,55,08	3,11,97	2,68,25	2,99,61
LVII—केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	LVII.—Miscellaneous Adjustments between Central, State and Union Territory Governments	..	..	..	..
LVIII—वाणिज्यिक और अन्य प्रति-ष्ठानों से लाभान्वित शक्ति	LVIII.—Dividends etc. from Commercial and other Undertakings	10,13,44	10,83,13	12,10,17	12,53,59
LIX—अन्य विविध अंशदान और समर्पण (असाइनमेंट)	LIX.—Other Miscellaneous Contributions and Assignments	..	..	..	..
कुल—अंशदान और विविध समायोजन	TOTAL—CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS	45,98,43	44,47,11	44,09,99	45,80,19
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	28,11,81,13	30,11,75,86	30,02,88,18	32,71,08,90

भगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
घाटे लायी गयी रकम	Brought Forward	9,35,62,35	10,31,26,68	10,15,83,64	11,10,22,26
मुद्रा और टकसाल—	CURRENCY AND MINT—				
62—मुद्रा और सिक्का-डलार्ड	62.—Currency and Coinage	14,14,87	15,04,28	15,74,00	17,33,12
63—टकसाल	63.—Mint	3,36,08	3,95,12	3,74,11	3,30,06
63-क—कोलार की सोने की खानें	63-A.—Kolar Gold Mines	5,27,61	5,45,62	5,51,02	5,80,54
जोड़—मुद्रा और टकसाल	TOTAL—CURRENCY AND MINT	22,78,56	24,45,02	24,99,13	26,43,72
विविध—	MISCELLANEOUS—				
64—बुध्मि सहायता	64.—Famine Relief	14,58	52	6	51
65—पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	65.—Pensions and other retirement benefits	6,83,74	6,47,27	7,04,38	7,66,51
66—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	66.—Territorial and Political Pensions	18,66	18,76	21,25	18,93
67—भारतीय राजाओं की निजी बैलियाँ और भत्ते	67.—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers	4,81,34	4,82,95	4,81,06	4,80,66
68—लेखन-सामग्री और छपाई	68.—Stationery and Printing	5,76,94	5,24,62	4,88,04	4,20,96
69—अफीम	69.—Opium	2,37,13	3,35,07	3,33,66	4,59,14
70—वन	70.—Forest	3,80,24	3,84,39	3,91,67	4,15,83
71—विविध	71.—Miscellaneous	1,48,14,55	1,58,43,47	1,79,37,49	2,01,06,82
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS	1,72,07,18	1,82,37,05	2,03,57,61	2,26,69,36
प्रशासन और विविध समायोजन—	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS—				
73—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में से राज्यों के हिस्से की भ्रवायगी	73.—Payments of States' share of Union Excise Duties	2,34,63,81	2,67,52,83	2,90,92,67	3,02,39,91
74—राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	74.—Grants-in-aid to State and Union Territory Governments	4,73,52,43	4,78,27,57	5,36,65,66	5,96,18,11
75—केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	75.—Miscellaneous Adjustments between Central, State and Union Territory Governments	28,66	28,20	28,20	38,90
76—अन्य विविध प्रशासन और समर्पण (प्रशासनिक)	76.—Other Miscellaneous Contributions and Assignments	5,89,87	6,28,07	8,75,38	8,34,24
जोड़—प्रशासन और विविध समायोजन	TOTAL—CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS	7,14,34,77	7,52,36,67	8,36,61,91	9,07,31,16
घाटे से आयी गयी रकम	Carried Over	18,44,82,86	19,90,45,42	20,81,02,29	22,70,66,50

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)

प्राप्तियां

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

		वास्तविक प्राप्तियां 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
घाते लायी गयी रकम	Brought Forward	28,11,81,13	30,11,75,86	30,02,88,18	32,71,08,90
असाधारण मदें—	EXTRAORDINARY ITEMS—				
LX—असाधारण प्राप्तियां	LX.—EXTRAORDINARY RECEIPTS	6,25,52	13,00,02	34,18,39	27,60,02
LXI—विभाजन-पूर्व की प्राप्तियां	LXI.—Prepartition Receipts	14	..	...	...
LXI-क—राष्ट्रीय संकट से सम्बन्धित प्राप्तियां	LXI-A.—Receipts connected with the National Emergency	1,86,44	2,54,00	2,54,00	...
जोड़—असाधारण मदें	TOTAL—EXTRAORDINARY ITEMS	8,12,00	15,54,02	36,72,39	27,60,02
रक्षा सेवाएं—	DEFENCE SERVICES—				
LXII—रक्षा सेवाएं—सक्रिय	LXII.—Defence Services—Effective	50,79,02	40,48,00	50,31,46	47,97,00
LXIII—रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	LXIII.—Defence Services—Non-effective	1,27,93	1,01,00	1,40,00	1,52,00
जोड़—रक्षा सेवाएं	TOTAL—DEFENCE SERVICES	52,06,95	41,49,00	51,71,46	49,49,00
डाक और तार—	POSTS AND TELEGRAPHS				
LXIX—डाक और तार	LXIX.—Posts and Telegraphs	1,74,30,66	2,12,67,00	2,08,10,00	2,26,66,00
रेल—	RAILWAYS—				
रेल बजट के अनुसार रेलों का राजस्व	Railway Revenue as per Railway Budget	8,18,35,60	8,92,69,21	9,02,46,27	9,47,32,05
जोड़—राजस्व प्राप्तियां	TOTAL—REVENUE RECEIPTS—	38,64,66,34	41,74,15,09	42,01,88,30	45,22,15,97
घाते ले जायी गयी रकम (पृष्ठ 28 देखिए)	Carried over (See page 28)				
राजस्व से व्यय की अधिकता अथवा कमी	Excess of Expenditure over Revenue or Deficit	..	..	..	..

भगतानों के अनमल—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)

भगतान

DISBURSEMENTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट प्रनुमान 1968-69	संशोधित प्रनुमान 1968-69	बजट प्रनुमान 1969-70
	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—<i>consd.</i>			
जारी	Brought Forward	18,44,82,86	19,90,45,42	20,81,02,29
भागे लायी गयी रकम				22,70,66,50
प्रसाधारण मदें—	EXTRAORDINARY ITEMS—			
77—असाधारण व्यय	77.—Extraordinary Charges	4,18,74	5,06,08	5,06,08
78—विभाजन-पूर्व की भदायगियां	78.—Pre-partition Payments	6,92	9,59	7,19
78-क-राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय	78-A.—Expenditure connected with the National Emergency	4,64,90	6,31,07	6,18,77
				...
जोड़—प्रसाधारण मदें—	TOTAL—EXTRAORDINARY ITEMS	8,90,56	11,46,74	11,32,04
रक्षा सेवाएं—	DEFENCE SERVICES—			
79—रक्षा सेवाएं—सक्रिय—स्थल-सेना	79 —Defence Services—Effective—			
नौ-सना	.Army	6,91,78,72	7,01,40,00	7,43,98,74
वायु-सेना	.Navy	38,55,21	38,16,00	41,10,00
	.Air Force	1,56,94,13	1,68,14,00	1,80,26,14
				1,97,72,60
82—रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	82.—Defence Services—Non-effective	27,00,05	28,25,00	30,00,00
जोड़—रक्षा सेवाएं	TOTAL—DEFENCE SERVICES	9,14,28,11	9,35,95,00	9,95,34,88
डाक और तार—	POSTS AND TELEGRAPHS			
90—डाक और तार—	90.—Posts & Telegraphs			
कार्यवाहन व्यय	Working Expenses	1,74,30,66	1,92,10,11	1,96,44,51
मासान्य राजस्व से लाभांश	Dividend to General Revenues		12,81,62	11,96,23
डाक और तार विभाग के अधिशेष से	Appropriation from P. & T. Surplus		7,75,27	
दिनियोग				10,40,26
मासान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की वापसी	Repayment of loan from General Revenues		7,75,27	7,59,27
घटाइये—डाक और तार राजस्व प्रारक्षित	Deduct—Amount met from P & T Revenue Reserve Fund		—7,75,27	—7,90,01
निधि से किया जाने वाला व्यय				10,40,26
जोड़—डाक और तार	TOTAL—POSTS AND TELEGRAPHS	1,74,30,66	2,12,67,00	2,08,10,00
रेलें—रेलवे बजट के अनुसार रेलों का व्यय	RAILWAYS—Railway Expenditure as per Railway Budget	8,18,35,60	8,92,69,21	9,02,46,27
जोड़—राजस्व से व्यय	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE			
भागे ले जायी गयी रकम (पृष्ठ 27 देखिए)	CARRIED OVER (SEE PAGE 29)	37,60,67,79	40,43,23,37	41,98,25,48
व्यय में राजस्व की अधिकता अथवा अधिशेष	EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURE OF SURPLUS	1,03,98,44	1,30,91,72	3,62,82
				36,35,81

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों के अनुमान—जारी

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	
	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	
I--भारत की समेकित निधि—जारी					
I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.					
CAPITAL ACCOUNT OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—					
राजस्व खाते से बाहर का पूंजी खाता— सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं—					
94—लोक-स्वास्थ्य का सुधार	94.—Improvement of Public Health	10,95	10,00	10,00	11,82
95—कृषि सम्बन्धी सुधार और गवेषणा	95.—Agricultural Improvement and Research	58,84	4,73,72	1,08,85	4,38,57
96—औद्योगिक और आर्थिक विकास	96.—Industrial and Economic Development	1,78,44,58	2,27,86,17	2,45,50,27	3,32,67,00
97—प्रसारण	97.—Broadcasting	4,09,35	4,22,42	4,13,59	3,68,71
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	1,83,23,72	2,36,92,31	2,50,82,71	3,40,86,10
MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—					
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं—					
98—बहुप्रयोजनी नदी-योजनाएं	98.—Multi-purpose River Schemes	16,50,34	17,83,75	20,56,37	20,50,56
100—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवाणिज्यिक)	100.—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)	58,20	1,18,20	1,15,20	84,15
101—बिजली योजनाएं	101.—Electricity Schemes	2,43,14	5,07,04	5,19,86	36,90,77
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	TOTAL—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	19,51,68	24,08,99	26,91,43	58,25,48
PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—					
लोक-निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी मयारों की विविध योजनाएं					
103—लोक-निर्माण-कार्य	103.—Public Works	42,76,90	47,88,47	47,27,32	55,99,90
104—दिल्ली पूंजी परिव्यय	104.—Delhi Capital Outlay	5,80,92	11,13,00	9,29,00	17,83,05
105—चण्डीगढ़ पूंजी परिव्यय	105.—Chandigarh Capital Outlay	71,63	13,30	48,28	86,05
108—दण्डकारण्य विकास योजनाएं	108.—Dandakaranya Development Schemes	3,03,34	3,03,00	3,00,00	3,00,00
108क—कांडला अन्नाद्य व्यापार क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय	108A.—Capital Outlay on Free Trade Zone, Kandla	7,11	6,90	5,27	4,12
109—अन्य निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	109.—Capital Outlay on Other Works	4,98,90	6,84,33	1,15,60	1,84,59
जोड़—लोक निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधार की विविध योजनाएं	TOTAL—PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS	57,38,80	69,09,00	61,25,47	75,88,53
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	2,60,14,20	3,30,10,90	3,38,99,61	4,75,00,11

II केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियाँ और भुगतानों के अनुमान—

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपये में)

भुगतान

DISBURSEMENTS

(In thousands of Rupees)

		वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—<i>Contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	2,60,14,20	3,30,10,30	3,38,99,61	4,75,00,11
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)—	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
110—बन्दरगाह	110.—Ports	2,29,02	3,18,00	3,78,94	6,32,50
111—प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत	111.—Lighthouses and Lightships	..	..	..	35,40
112—विमानन	112.—Aviation	3,61,68	8,10,56	8,78,77	12,83,01
113—रेल-सड़क समन्वय योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	113.—Capital Outlay on Rail-Road Coordination Schemes	..	..	..	..
114—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	114.—Road and Water Transport Schemes	33,74	3,14	10,47	5,10
115—समुद्रपारीय संचार सेवा	115.—Overseas Communications Service	23,35	4,38,48	3,48,82	3,33,00
116—जहाजों, तेलवाहक जहाजों आदि पर पूँजी परिव्यय	116.—Capital Outlay on Shipping Tankers, etc.	32,77	59,07	1,26,48	2,63,55
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	6,80,56	16,29,25	17,43,48	25,54,56
मुद्रा और टकसाल—	CURRENCY AND MINT—				
117—मुद्रा और सिक्का-बलाई	117.—Currency and Coinage	13,68,38	12,46,04	12,11,12	4,83,56
118—टकसाल	118.—Mint	11,16	78,87	48,66	50,27
118क—कोलार की सोने की खानों पर पूँजी परिव्यय	118A.—Capital Outlay on Kolar Gold Mines	50,05	80,17	81,87	94,02
जोड़—मुद्रा और टकसाल	TOTAL—CURRENCY AND MINT	14,29,59	14,05,08	13,41,65	6,27,85
विविध—	MISCELLANEOUS—				
93—सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस	93.—Security Printing Press	14,00	47,24	30,86	66,56
119—वन	119.—Forests	1,24	22,15	2,15	25,20
120—पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी	120.—Payments of Commuted value of Pensions	3,46,01	3,79,34	4,08,75	4,79,86
121—स्टर्लिंग पेंशनों पर पूँजी परिव्यय	121.—Capital Outlay on Sterling Pensions	—3,83,26	—3,92,62	—3,92,62	—3,96,55
124—सरकारी व्यापार की योजनाएं	124.—Schemes of Government Trading	79,51,80	78,73,78	—1,14,63,85	—36,13,11
जोड़	TOTAL	79,29,79	79,29,89	—1,14,14,71	—34,38,04
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	2,81,24,35	3,60,44,63	3,69,84,74	5,06,82,52

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
		1967-68	1968-69	1968-69	1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate 1969-70

I—भारत की समेकित निधि—जारी I.—CONSOLIDATED FUND OF
INDIA—contd.

राजस्व खाते से बाहर का पूँजी खाता— LXX अमरीकी और उधार पट्टे सम्बन्धी अधिशेष वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रकम	Capital Accounts outside Revenue Account—LXX.—Sale Proceeds of American and Lease-Lend Surpluses	..	..	..	..
जोड़—राजस्व खाते से बाहर का पूँजी खाता झापी ले जायी गयी रकम	Total—Capital Accounts outside the Revenue Account—Carried over.	..	..	..	..

श्रीर भगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
I.—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	2,81,24,35	3,60,44,63	3,69,84,74	5,06,82,52
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward—	79,29,79	79,29,89	—1,14,14,71	—34,38,04
126.—विकास अनुदान	126.—Grants for Development	36,00,59	27,23,32	23,83,19	6,28,35
127.—विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति और पुनर्वास अनुदान	127.—Compensation and Rehabilitation Grants to Displaced Persons	—7,45,31	—5,89,76	—6,53,94	—5,52,54
128.—अमरीकी सरकार से मिलने वाली विकास सहायता का अन्तरण	128.—Transfer of Development Assistance from the Government of U.S.A.	1,50,00,00	..	..	..
129.—सिंधु नदी जल सन्धि के अनुसार आवश्यकियों पर पूंजी परिव्यय	129.—Capital Outlay on Payments under Indus Water Treaty	8,91,10	6,13,94	6,13,94	5,39,28
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS	2,66,76,17	1,06,77,39	—90,71,52	—28,22,95
रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय—	DEFENCE CAPITAL OUTLAY—				
130.—रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	130.—Defence Capital Outlay	1,06,21,84	1,20,80,00	1,07,75,26	1,24,22,00
131/132.—रेल पूंजी (जो रेलवे बजट में दिखाई गयी है)	131/132.—RAILWAY CAPITAL (AS SHOWN IN THE RAILWAY BUDGET)	1,35,92,77	1,43,00,00	1,34,09,03	1,32,60,00
134.—डाक और तार	134.—POSTS AND TELEGRAPHS	26,44,49	30,45,54	30,44,75	34,16,41
जोड़—राजस्व खाते से बाहर का पूंजी खाता	TOTAL—CAPITAL ACCOUNTS OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT Carried over	8,16,59,62	7,61,47,56	5,51,42,26	7,69,57,98
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	8,16,59,62	7,61,47,56	5,51,42,26	69,57,98

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—भारत की समेकित निधि—जारी आगे लायी गयी रकम	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd. Brought Forward	..	..	..	..
सत्कारी ऋण—	PUBLIC DEBT—				
क—भारत में लिया जाने वाला ऋण	A.—Debt raised in India—				
I—स्थायी ऋण	I.—PERMANENT DEBT—				
बाजार ऋण	Market Loans	4,25,48,68	3,00,00,00	3,95,67,37	5,00,00,00
स्वर्ण बांड	Gold Bonds	1,41,42	50,00	29,00	..
हत्तमी बांड	Prize Bonds	—33	..	..	..
वार्षिकी पत्र	Annuity Certificates]	14,45	20,00	25,00	25,00
जोड़—स्थायी ऋण	TOTAL—PERMANENT DEBT	4,27,04,22	3,00,70,00	3,96,21,37	5,00,25,00
II—अस्थायी ऋण—	II.—FLOATING DEBT—				
राजकोष ऋणियां	Treasury Bills	82,10,46,00	92,90,00,00	84,76,31,50	96,53,00,00
अन्य मदें	Other Items	3,48,75	3,48,75	3,48,75	3,48,75
जोड़—अस्थायी ऋण	TOTAL—FLOATING DEBT	82,13,94,75	92,93,48,75	84,79,80,25	96,56,48,75
क—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	B.—Debt raised outside India	7,88,93,16	10,19,00,00	8,68,54,39	8,50,00,04
जोड़—सरकारी ऋण	TOTAL—PUBLIC DEBT	94,29,92,13	1,06,13,18,75	97,44,56,01	1,10,06,73,79
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम—	LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT—				
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले अग्रिम	Advances to State and Union Terri- tory Governments	3,78,04,04	4,25,00,00	5,75,00,00	5,40,00,00
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances	1,16,40,14	1,24,00,00	1,60,00,00	2,05,00,00
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	TOTAL—LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT	4,94,44,18	5,49,00,00	7,35,00,00	7,45,00,00
अन्तराष्ट्रीय निपटारा	INTER-STATE SETTLEMENT	17,09	..	14,33	..
जोड़—राजस्व-प्राप्तियां—पृष्ठ 22 से आगे लायी गयी रकम	Total—Revenue Receipts—Brought Forward (From page 22)	38,64,66,34	41,74,15,09	42,01,88,30	45,22,15,97
जोड़—I—भारत की समेकित निधि—प्राप्तियां	TOTAL—I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—RECEIPTS	1,37,89,19,74	1,53,36,33,84	1,46,81,58,64	1,62,73,89,76

भगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

(हजार पयों में)

(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक भुगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate, 1969-70
—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
भाग लायी गयी रकम	Brought Forward	8,16,59,62	7,61,47,56	5,51,42,26	7,69,57,98
सरकारी ऋण—	PUBLIC DEBT—				
क—भारत में लिया जाने वाला ऋण—	A.—Debt raised in India—				
I—स्थायी ऋण—	I—PERMANENT DEBT—				
बाजार ऋण	Market Loans	2,57,13,01	2,39,00,00	2,42,00,00	3,97,00,00
इनामी बांड	Prize Bonds	1,24,02	5,00,00	4,00,00	3,00,00
वार्षिकी—रत्न	Annuity Certificates	42,20	40,00	45,00	50,00
जोड़—स्थायी ऋण—	TOTAL—PERMANENT DEBT	2,58,79,23	2,44,40,00	2,46,45,00	4,00,50,00
—प्रस्थायी ऋण	II—FLOATING DEBT—				
राजकोषीय हुंडिया	Treasury Bills	81,20,59,75	90,00,00,00	83,05,31,50	94,00,00,00
अन्य मदें	Other Items	2,95,75	2,00,00	5,20,75	2,00,75
जोड़—प्रस्थायी ऋण	TOTAL—FLOATING DEBT	81,23,55,50	90,02,00,00	83,10,52,25	94,02,00,75
क—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	B.—Debt raised outside India	1,87,77,96	1,94,47,44	1,69,62,70	2,07,60,31
जोड़—सरकारी ऋण	TOTAL—PUBLIC DEBT	85,70,12,69	94,40,87,44	87,26,59,95	1,00,10,11,06
केंद्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और प्रग्रिम—	LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT—				
राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले प्रग्रिम	Advances to State and Union Territory Governments	8,91,94,41	8,55,68,17	9,15,16,06	7,93,74,23
अन्य ऋण और प्रग्रिम	Other Loans and Advances	4,71,82,60	4,60,73,66	5,94,26,68	4,56,59,91
जोड़—केंद्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और प्रग्रिम	TOTAL—LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT	13,63,77,01	13,16,41,83	15,09,42,74	12,50,34,14
अन्तर्राष्ट्रीय निपटारा	INTER-STATE SETTLEMENT	24,86	83	34,71	..
जोड़—राजस्व से व्यय (पृष्ठ 23 से भाग लायी गयी रकम)	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE—BROUGHT FORWARD (FROM PAGE 23)	37,60,67,79	40,43,23,37	41,98,25,48	44,85,80,16
जोड़—I—भारत की समेकित निधि—भुगतान	TOTAL—I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—DISBURSEMENTS	1,45,11,41,97	1,55,62,01,03	1,49,86,05,14	1,65,15,83,34

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां

RECEIPTS

(हजारों रुपये में)
(In thousands of Rupees)

वास्तविक प्राप्तियां 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70

II—भारत की आकस्मिकता निधि— II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—

भारत की आकस्मिकता निधि —

CONTINGENCY FUND OF INDIA—

समेकित निधि या अन्य किसी प्रारक्षित निधि
से विनियोग

Appropriation from the Consolidated
Fund or from any Reserve Fund .

2,50 .. 58,72 ..

जोड़—II—भारत की आकस्मिकता
निधि—प्राप्तियां

TOTAL—II—CONTINGENCY FUND
OF INDIA—RECEIPTS

2,50 .. 58,72 .

भगतानों के अन्मान — जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS			
	वास्तविक भगतान 1967-68	बजट अन्मान 1968-69	संशोधित अन्मान 1968-69	बजट अन्मान 1969-70
	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70

II—भारत की आकस्मिकता निधि II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—

भारत की आकस्मिकता निधि— CONTINGENCY FUND OF INDIA—

भारत की आकस्मिकता निधि के अग्रिमों के व्यय	Expenditure out of advances from the Contingency Fund of India	58,72	..	..	..
जोड़-II—भारत की आकस्मिकता निधि- भुगतान	TOTAL—II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—DISBURSE- MENTS	58,72	..	..	..

केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget, Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता	III.—PUBLIC ACCOUNT—				
अनिधिबद्ध ऋण—	UNFUNDED DEBT—				
	SMALL SAVINGS SCHEMES—				
पोस्टी बचत योजनाएं	Post Office Savings Bank Deposits	4,48,94,60	4,50,00,00	4,50,00,00	4,58,00,00
डाकघर बचत बैंक जमा	Post Office Fixed Deposit	4,64	..	1,00,00	1,00,00
डाकघर मियादी जमा	Government Fixed Deposit Scheme	..	..	50,00	50,00
सरकारी मियादी जमा योजना	10-Year Treasury Savings Deposit Certificates	6	..	..	..
दश-वर्षीय राजकोष बचत जमा-पत्र	10-Year Defence Deposit Certi- ficates	33,19	8,70,00	6,87,00	6,87,00
दश-वर्षीय रक्षा जमा-पत्र	12-Year National Plan Savings Certificates	69	..	..	..
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत-पत्र	12-Year National Defence Certi- ficates	88,70,55	83,00,00	80,00,00	79,50,00
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र	Cumulative Time Deposits	23,01,99	25,00,00	25,00,00	28,00,00
इन्हें वाली मीयादी जमा	Post Office Cash Certificates	4	..	..	..
डाकघर नकदी-पत्र	National Savings Certificates	12,18,23	11,50,00	11,35,00	11,50,00
राष्ट्रीय बचत-पत्र	Defence Savings Certificates	—2	..	..	..
रक्षा बचत-पत्र	10-Year National Plan Certificates	—2,35	..	..	..
दश-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना-पत्र					
गोष्ठ—छोटी बचत योजनाएं	TOTAL—SMALL SAVINGS SCHEMES	5,81,21,62	5,78,20,00	5,74,72,00	5,85,37,00
राज्य भविष्य निधियां	State Provident Funds	1,51,10,18	1,26,10,00	1,42,23,38	1,54,10,98
लोक भविष्य निधि	Public Provident Fund	..	10,00,00	2,00,00	5,00,00
आयकर वार्षिकी जमा	Income Tax Annuity Deposits	41,17,92	5,00,00	10,00,00	7,00,000
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (net)	..	..	..	..
पारसी की सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S. Government Counterpart Funds (Net)	93,56,00	25,00,00	..	40,11,00
अन्य मदें—	OTHER ITEMS—				
सेवा निधियों की जमा	Deposit of Service Funds	1,57	1,56	2,01	1,91
अन्य खाते	Other Accounts	28,87,01	4,47,04	4,51,51	4,58,66
गोष्ठ—अन्य मदें	TOTAL—OTHER ITEMS	28,88,58	4,48,60	4,53,52	4,60,57
गोष्ठ—अनिधिबद्ध ऋण	TOTAL—UNFUNDED DEBT	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55

भगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भगतान 1967-68 Accounts, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69 Revised Estimate, 1968-69	बजट अनुमान 1969-70 Budget Estimate 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.				
अनिवृत्त ऋण—	UNFUNDED DEBT—				
छोटी बचत योजनाएं—	SMALL SAVINGS SCHEMES—				
डाकघर बचत बैंक जमा	Post Office Savings Bank Deposits	3,90,49.48	3,90,00,00	3,90,00,00	3,90,00,00
दश-वर्षीय राजकोष बचत जमा-पत्र	10-Year Treasury Savings Deposit Certificates	5,23.49	4,25,00	4,62,00	5,20,00
दश-वर्षीय रक्षा जमा पत्र	10-year Defence Deposit Certificates	74.94	70,00	87,00	87,00
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र	12-Year National Plan Savings Cer- tificates	11,96,70	11,40,00	9,00,00	8,00,00
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र	12-Year National Defence Certifi- cates	18,64.64	21,00,00	16,00,00	16,50,00
बढ़ने वाली सीमाही जमा	Cumulative Time Deposits	10,96,97	12,00,00	10,00,00	12,00,00
डाकघर नकदी-पत्र	Post Office Cash Certificates	2.86	2,00	2,00	2,00
रक्षा बचत पत्र	Defence Savings Certificates	4.01	3,00	6,00	3,00
राष्ट्रीय बचत पत्र	National Savings Certificates	18,27,00	18,10,00	18,35,00	17,00,00
दश-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना पत्र	10-Year National Plan Certificates	1,40,72	50,00	60,00	50,00
जोड़—छोटी बचत योजनाएं	TOTAL—SMALL SAVINGS SCHEMES	4,57,80,81	4,58,00,00	4,49,52,00	4,50,12,00
राज्य प्रविष्टि निधियां	State Provident Funds	75,67.71	92,35,10	94,98,04	91,40,35
प्रायकर वार्षिकी जमा	Income Tax Annuity Deposits	6,68,28	14,00,00	14,00,00	17,25,00
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (net)	38,65	25,00	25,00	25,00,00
अमेरिकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा रकम का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S Government Counterpart Funds (net)	..	..	59,55.00	..
घने ले जायी गयी रकम	Carried Over	5,40,55.45	5,64,60,10	6,18,30,04	5,83,77,35

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND (हजार रुपयों में)

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55
जमा और अधिम—	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियाँ—	Depreciation and other Reserve Funds—				
(क) ब्याज—	(a) Interest bearing—				
रेलवे पेंशन निधि	Railway Pension Fund	12,83,95	12,69,95	14,84,19	13,14,04
रेलवे बजट के अनुसार रेल मूल्यह्रास और राजस्व प्रारक्षित निधियाँ	Railway Depreciation and Revenue Reserve Funds as per Railway Budget	1,01,51,55	1,06,39,95	1,01,20,14	1,01,33,98
रेलवे बजट के अनुसार रेल विकास निधि	Railway Development Fund as per Railway Budget	11,42,88	21,23,84	15,97,17	20,59,53
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P. & T. Renewals Reserve Fund	..	..	..	..
डाक और तार विकास निधि, डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि और टेलीफोन विकास निधि	P. & T. Development Fund, P. & T. Revenue Reserve Fund and Telephone Development Fund	*22,09,89	7,75,27	7,90,01	10,40,26
	P & T Capital Reserve Fund	..	12,65	7,39	2,96
अन्य प्रारक्षित निधियाँ	Other Reserve Funds	1,80,14	1,86,22	1,57,49	1,70,01
(ख) गैर-ब्याज—	(b) Non-Interest bearing—				
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P&T Renewals Reserve Fund	14,77,05	16,47,22	16,58,48	18,30,89
अन्य प्रारक्षित निधियाँ	Other Reserve Funds	78,48	86,40	98,28	71,35
ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिए विनियोग	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,00
अन्य जमा रकमों और अधिम—	Other Deposits and Advances—				
(क) ब्याज—	(a) Interest bearing—				
जहाज विकास निधि	Shipping Development Fund	14,50,61	23,68,95	23,68,95	23,68,95
आयकर, अधिकर, अतिरिक्त लाभ कर और अधिभार की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax and Surcharge	13,75	21,00	14,00	14,00
भारतीय राजाओं के निमित्त ग्यासों में जमा	Deposits of Trusts for Indian Princes	3,29	3,06	5,87	2,84
अन्य जमा रकमों	Other Deposits	1,49	..	..	..
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	1,84,93,08	1,96,34,51	1,88,01,97	1,95,08,81
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55

*केवल डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि से सम्बन्धित लेनदेन

*Represents transactions pertaining to P & T Revenue Reserve Fund only.

भगतानों के अनुमान—जारी
DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
I—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.				
भरा लायी गयी रकम	Brought Forward	5,40,55.45	5,64,60.10	6,18,30.04	5,83,77.35
अन्य मदें—	OTHER ITEMS—				
सेवा-निधियों की जमा	Deposits of Service Funds)	3.17	3.00	2.60	2.01
विशेष ऋण	Special Loans	2.40	3.13	..	..
अन्य खाते	Other Accounts	2,98.68	2,73.11	26,39.51	14,16.20
जोड़—अन्य मदें	TOTAL—OTHER ITEMS	3,04.25	2,79.24	26,42.11	14,18.21
जोड़—अनिधिवद्ध ऋण	TOTAL—UNFUNDED DEBT	5,43,59.70	5,67,39.34	6,44,72.15	5,97,95.56
जमा और प्रदत्त—	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्य ह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां	Depreciation and Other Reserve Funds—				
(क) व्याज	(a) Interest bearing—				
रेलवे पेंशन निधि	Railway Pension Fund	5,33.53	5,35.05	6,14.18	6,29.11
रेलवे बजट के अनुसार रेल मूल्य ह्रास और राजस्व प्रारक्षित निधियां	Railway Depreciation and Revenue Reserve Funds as per Railway Budget	1,27,50.37	1,01,36.08	1,05,55.49	95,28.26
रेलवे बजट के अनुसार रेल विकास निधि	Railway Development Fund as per Railway Budget	19,38.70	21,23.84	20,41.94	20,59.53
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P. & T. Renewals Reserve Fund	..	..	..	..
डाक और तार विकास निधि, डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि और टेलीफोन विकास निधि	P. & T. Development Fund, P. & T. Revenue Reserve Fund and Telephone Development Fund	£ 26,33.69	7,75.27	7,90.01	10,40.26
डाक और तार पूंजी प्रारक्षित निधि	P. & T. Capital Reserve Fund	..	4,65.00	1,00.00	1,20.00
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	79.96	2,00.96	1,95.30	97.49
(ख) गैर-व्याज	(b) Non-interest bearing—				
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P. & T. Renewals Reserve Fund.	1,90.94	3,24.46	2,21.75	3,83.59
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	22.87	17.06	24.80	22.43
भरा ले जायी गयी रकम	Carried Over	1,81,50.06	1,45,77.72	1,45,43.47	1,38,80.67
भरा ले जायी गयी रकम	Carried Over	5,43,59.70	5,67,39.34	6,44,72.15	5,97,95.56

£ केवल डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि से सम्बन्धित लेन-देन

£ Represents transactions pertaining to P&T Revenue Reserve Fund only

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी		III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.			
आगे लायी गयी रकम . . .	Brought Forward . . .	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55
आगे लायी गयी रकम . . .	Brought Forward . . .	1,84,93,08	1,96,34,51	1,88,01,97	1,95,08,81
(ख) गैर व्याज—		(b) Non-Interest bearing—			
केन्द्रीय सड़क निधि . . .	Central Road Fund . . .	3,60,00	4,00,00	4,00,00	4,00,00
कपास खेतिहर हितकारी निधि . . .	Fund for the Benefit of Cotton Growers . . .	90,00	90,00	..	..
सूती वस्त्र उद्योग निधि . . .	Cotton Textiles Fund . . .	1,00,00	..	..	..
विपणन विकास निधि . . .	Marketing Development Fund . . .	22,69,05	40,00,00	34,00,00	44,00,00
असैनिक उड़्डयन निधि . . .	Civil Aviation Fund . . .	1,00,00	70,00	1,00,00	2,50,00
विशेष विकास निधि—		Special Development Fund—			
कोलम्बो आयोजना के अधीन प्राप्त अन्य सहायता से स्थापित निधि . . .	Fund from other Assistance under the Colombo Plan . . .	3,35,41	2,82,55	91,82	87,00
भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग करार के अधीन प्राप्त सहायता से स्थापित निधि . . .	Fund from Assistance under the Indo-U.S. Technical Cooperation Agreement . . .	83,08	1,23,08	87,65	75,57
अन्य निधियाँ . . .	Other Funds . . .	1,76,19,08	..	..	..
जोड़ . . .	TOTAL . . .	1,80,37,57	4,05,63	1,79,47	1,62,57
आगे ले जायी गयी रकम . . .	Carried Over . . .	3,93,49,70	2,46,00,14	2,28,81,44	2,47,21,38
आगे ले जायी गयी रकम . . .	Carried Over . . .	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
-सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	1,81,50,06	1,45,77,72	1,45,43,47	1,38,80,67
अन्य जमा और अग्रिम—	OTHER DEPOSITS AND ADVANCES—				
(क) व्याज	(a) Interest bearing—				
अवकाश विकास निधि	Shipping Development Fund	15,82,72	23,68,95	23,68,95	23,68,95
प्राय-कर, अधिकर, अतिरिक्त लाभ-कर और अधिभार की जमा	Deposits of Income-tax, Super Tax, Excess Profits Tax and Surcharge	20,04	21,39	21,23	16,60
अन्य जमा रकमें	Other Deposits	88,87	..	..	..
भारतीय राजाओं के निमित्त खातों में जमा	Deposits of Trusts for Indian Princes	27,04	21,04	21,04	21,04
(ख) गैर-व्याज	(b) Non-Interest bearing—				
केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund	3,07,95	4,31,04	4,36,16	4,36,41
कपास खेतिहर हितकारी निधि	Fund for the Benefit of Cotton Growers	..	5,00	..	..
सूती वस्त्र निधि	Cotton Textiles Fund	4,37	..	5,00	5,00
चीनी उद्योग संरक्षण निधि	Fund for the Protection of Sugar Industry	..	1,06	48	58
विपणन विकास निधि	Marketing Development Fund	23,18,99	40,00,00	33,19,50	42,84,95
प्रदेशिक उड़ान निधि	Civil Aviation Fund	79,78	1,13,00	1,43,00	2,50,00
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	2,25,79,82	2,15,39,20	2,08,58,83	2,12,64,20
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96,19,55
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	3,93,49,70	2,46,00,14	2,28,81,44	2,47,21,38
कोयला खान अधिक प्रवास और सामान्य कल्याण निधि	Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund	4,29,82	3,78,08	4,13,67	3,98,66
कोयला खान केन्द्रीय सुरक्षा केन्द्र निधि	Coal Mines Central Rescue Station Fund	21,15	19,10	19,60	19,60
लोहा खान अधिक कल्याण निधि	Iron-Ore Mines Labour Welfare Fund	66,94	69,02	69,02	72,00
प्रबरक खान अधिक कल्याण निधि	Mica Mines Labour Welfare Fund	31,23	30,00	30,00	35,00
लोहा और इस्पात समकरण निधि	Iron and Steel Equalisation Fund	78,93	1,00,00	25,00	50,00
डाकघर सर्टिफिकेट और बढ़ने वाली मियादी जमा से संबंध बोनस निधि	Post Office Certificates Cumulative Time Deposits Bonus Fund	32,33,74	37,59,77	38,74,68	44,06,93
राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	61,76	..	2,30,00	1,80,00
संकटकालीन खोखिम (माल और कारखाना) बीमा निधियाँ	Emergency Risks (Goods and Factories) Insurance Funds	1,84,65	2,00,00	2,00,00	2,70,00
स्थानीय निधियों की जमा रकमें	Deposits of Local Funds	3,05,35	7,96,73	41,48,85	30,55,85
अस्थायी जमा	Civil Deposits	6,48,39,78	4,79,42,86	6,24,67,28	5,04,72,90
अन्य जमा रकम	Other Deposits	98,92,74	99,00,64	1,01,33,22	1,01,63,13
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	11,84,95,79	8,77,96,34	10,44,92,76	9,38,45,45
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	8,95,94,30	7,48,78,60	7,33,48,90	7,96 19,55

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	2,25,79,82	2,15,39,20	2,08,58,83	2,12,64,20
विशेष विकास निधि—	Special Development Fund—				
भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग करार के अधीन प्राप्त सहायता से स्थापित निधि	Fund from Assistance under the Indo-U.S. Technical Co-operation Agreement	43,25	52,81	34,52	60,18
कोलम्बो आयोजना के अधीन प्राप्त अन्य सहायता से स्थापित निधि	Fund from Other Assistance under the Colombo Plan	3,33,68	35,75	35,75	20,00
अन्य निधियाँ	Other Funds	5,45,61,14	..	..	..
जोड़	TOTAL	5,49,38,07	88,56	70,27	80,18
कोयला खान श्रमिक आवास और सामान्य कल्याण निधि	Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund	4,01,51	5,25,56	4,99,89	5,14,99
कोयला खान केन्द्रीय सुरक्षा केन्द्र निधि	Coal Mines Central Rescue Station Fund	22,35	23,07	20,42	26,24
लोहा खान श्रमिक कल्याण निधि	Iron-Ore Mines Labour Welfare Fund	18,21	37,53	36,82	65 64
अबरक खान श्रमिक कल्याण निधि	Mica Mines Labour Welfare Fund	37,90	46,15	44,17	50,45
लोहा और इस्पात समकरण निधि	Iron and Steel Equalisation Fund	1,10,35	1,52,00	59,88,00	86,00
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	7,81,08,21	2,24,12,07	2,75,18,40	2,20,87,70
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II.—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ

RECEIPTS

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक प्राप्तियाँ 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70	
	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70	
III—सार्वजनिक खाता—जारी					
III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.					
प्रागे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,95,94.30	7,48,78.60	7,33,48.90	7,96,19.55
प्रागे लायी गयी रकम	Brought Forward	11,84,95.79	8,77,96.34	10,44,92.76	9,38,45.45
व्याज और अधिभार सहित आयकर, अधिकर और प्रतिरिक्त लाभ-कर की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax including Interest and Surcharge	25	..	..	..
शारीरिक क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) निधि	Personal Injuries (Compensation Insurance) Fund	5.94	10.00	10.00	1.00
युद्ध जोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा निधि	War Risks (Marine Hulls) Re- Insurance Fund	24.20	44.00	74.00	66.00
रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	Railway Safety Works Fund	1,47,14	1,72,00	1,64,43	1,88,19
फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता का जमा खाता	Deposit Account of the Assistance given by the Ford Foundation	3.83	25.00	1.00	5.00
अन्य खाते	Other Accounts	40,27.97	23,48.46	35,17.27	26,68.37
श्रमिक कल्याण निधि	Workmen's Benefit Fund	..	..	..	..
बर्मा सरकार के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Government of Burma	..	1	3	3
रिजर्व बैंक के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Reserve Bank	3.18	4,73.94	5,42.92	5,04.09
अन्य अग्रिम	Other Advances	3,42,95.25	3,41,46.64	3,86,24.23	3,91,12.29
रोकड़ बाकी निवेश खाता (शुद्ध)	Cash Balance Investment Account (net)	..	6.95	..	..
बट्टा-भोक्षण निधि	Discount Sinking Fund	1,89.74	1,65.88	1,65.88	1,52.06
अन्य संचयन खाते (शुद्ध)	Other Suspense Accounts (net)	..	40.65	29,08.96	7,68.55
बनादेश (चक) और हुंडिया (शुद्ध)	Cheques and Bills (net)	49,16.01	..	49,96.08	..
विभागीय और दूसरे ऐसे ही खाते (शुद्ध) विभिन्न	Departmental and Similar Accounts (net)	5,54.02	..	..	..
	Miscellaneous	5,67,93.99	76	1,35,92.20	9,02.08
जोड़—जमा और अग्रिम	TOTAL—DEPOSITS AND ADVANCES	21,94,57.31	12,52,30.63	16,90,93.76	13,82,13.11
प्रागे ले लायी गयी रकम	Carried Over	30,90,51.61	20,01,09.23	24,24,42.66	21,78,32.66

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान, 1967-68	बजट अनुमान, 1968-69	संशोधित अनुमान, 1968-69	बजट अनुमान, 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—<i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	5,43,59,70	5,67,39,34	6,44,72,15	5,97,95,56
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	7,81,08,21	2,24,12,07	2,75,18,40	2,20,87,70
डाकघर सर्टिफिकेट और बढ़ने वाली मीयादी जमा से सम्बद्ध बोनस-निधि	Post Office Certificates and Cumu- lative Time Deposits Bonus Fund	5,98,79	6,73,60	6,92,00	7,51,28
राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	10,25	3,00,00	18,10,00	2,00,00
संकटकालीन जोखिम (माल और कार- खाना) बीमा निधियाँ	Emergency Risks (Goods and Factories) Insurance Funds	73,29	1,75,12	1,01,30	83,35
स्थानीय नदियों को जमा रकमें	Deposits of Local Funds	2,35,80	7,85,73	41,22,60	30,67,82
प्रसैनिक जमा	Civil Deposits	5,23,76,05	4,80,88,72	6,06,21,04	5,01,50,77
अन्य जमा रकमें	Other Deposits	1,03,08,55	90,49,25	94,07,28	96,59,18
गज और प्राविहार सहित आयकर, अधिकर और प्रतिरिक्त लाभ-कर की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax including Interest and Surcharge	10,14	25	3,47	50
शारीरिक क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) निधि	Personal Injuries (Compensation In- surance) Fund	80	3,55	2,37	20
युद्ध जोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा निधि	War Risks (Marine Hulls) Re- Insurance Fund	22	5,14	4,17	4,19
रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	Railway Safety Works Fund	..	3,60,43	..	5,00,00
फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता का जमा खाता	Deposit Account of the Assistance given by the Ford Foundation	9	3,52	2,39	3,02
अन्य खाते	Other Accounts	37,90,40	23,12,75	32,35,59	25,87,17
श्रमिक कल्याण निधि	Workmen's Benefit Fund	..	2	..	..
बर्मा सरकार के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Government of Burma	67	..	—2	3
रिजर्व बैंक के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Reserve Bank	1,06,41	4,77,63	5,43,18	5,04,61
अन्य प्रग्रिम	Other Advances	3,53,28,30	3,40,07,25	3,87,33,88	3,91,30,10
रोकड़ बाकी निवेश खाता (शुद्ध)	Cash Balance Investment Account (net)	8,48,80	..	14,57	20,73
बट्टा शोधन निधि	Discount Sinking Fund	..	..	..	..
अन्य उच्च खाते (शुद्ध)	Other Suspense Accounts (net)	79,40,35	..	..	..
घनादेश (चक) और हुंडिया (शुद्ध)	Cheques and Bills (net)	..	12,48,71	..	39,32,46
विभागीय और दूसरे ऐसे ही खाते (शुद्ध)	Departmental and Similar Accounts (net)	..	55,43	9,05,17	4,78
विविध	Miscellaneous	32,52,70	3,76	3,09	2,38
मोड़—अण्ड और प्रग्रिम	TOTAL—DEPOSITS AND ADVANCES	19,29,89,82	11,99,62,93	14,77,20,48	13,26,90,27
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	24,73,49,52	17,67,02,27	21,21,92,63	19,24,85,83

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां

RECEIPTS

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

		वास्तविक प्राप्तियां 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—समाप्त	III.—PUBLIC ACCOUNT— <i>concl.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	30,90,51,61	20,01,09,23	24,24,42,66	21,78,32,66
प्रेषणाएं—	REMITTANCES—				
I—भारत में प्रेषणाएं—	I.—REMITTANCES WITHIN INDIA—				
अंतर्देशीय मनी-आर्डर	Inland Money Orders . . .	5,55,37,34	5,80,00,00	5,80,00,00	6,00,00,00
अन्य प्रेषणाएं	Other Remittances . . .	85,46,34	20,13,23	19,65,57	19,85,55
—इंग्लैण्ड और भारत के बीच प्रेषणाएं—	II.—REMITTANCES BETWEEN ENGLAND AND INDIA—				
इंग्लैण्ड और भारत के बीच प्रेषण-खाता	Remittance Accounts between Eng- land and India . . .	4,30,24,29	3,40,26,21	3,14,79,75	2,69,17,99
जोड़—प्रेषणाएं	TOTAL—REMITTANCES . . .	10,71,07,97	9,40,39,44	9,14,45,32	8,89,03,54
जोड़ और भारत के बीच नकदी का अन्तरण—	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA—				
रिजर्व बैंक की मार्फत प्रेषणाएं	Remittances through the Reserve Bank . . .	2,73,21,09	1,31,77,47	1,65,60,80	1,46,96,12
रिजर्व बैंक में जमा—	RESERVE BANK DEPOSITS—				
रेलें	Railways . . .	—1,42,44,65	—1,03,47,10	—1,12,29,89	—89,18,93
डाक और तार	Posts and Telegraphs . . .	36,47,22	42,03,82	50,83,85	50,48,22
रक्षा सेवाएं	Defence Services . . .	—9,82,10,93	—10,39,06,36	—10,57,26,70	—11,03,50,79
जोड़—III—सार्वजनिक खाता—प्राप्तियां	TOTAL III.—PUBLIC ACCOUNT— RECEIPTS . . .	33,46,72,31	19,72,76,50	23,85,76,04	20,72,10,82
जटाइए—वित्तीय संस्थाओं और प्राकृतिक व्यय के लिए व्यवस्था	Deduct—Provision for Financial In- stitutions and Contingencies . . .	..	..	..	..
जोड़—(I+II+III)	TOTAL—(I+II+III) . . .	1,71,35,94,55	1,73,09,10,34	1,70,67,93,40	1,83,46,00,58
प्रारम्भिक शेष	OPENING BALANCE . . .	1,05,99,82	51,06,91	64,56,86	50,90,36
कुल जोड़	GRAND TOTAL . . .	1,72,41,94,37	1,73,60,17,25	1,71,32,50,26	1,83,96,90,94

भुगतानों के अनुमान—समाप्त

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—concl'd.

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	संशोधित अनुमान 1968-69	बजट अनुमान 1969-70
	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
III—सार्वजनिक खाता—समाप्त	III—PUBLIC ACCOUNT—concl'd.			
माने लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	24,73,49,52	17,67,02,27	21,21,92,63
				19,24,85,83
प्रेषणाएं—	REMITTANCES—			
I—भारत में प्रेषणाएं—	.—REMITTANCES WITHIN INDIA—			
अन्तर्राष्ट्रीय मनी-आर्डर	Inland Money Orders . . .	5,70,40,60	5,80,00,00	5,80,00,00
अन्य प्रेषणाएं	Other Remittances . . .	..	27,80,00	31,94,32
				32,06,80
II—इंग्लैंड और भारत के बीच प्रेषणाएं	II.—REMITTANCES BETWEEN ENGLAND AND INDIA—			
इंग्लैंड और भारत के बीच प्रेषण-खाता	Remittance Account between England and India . . .	4,02,03,80	3,40,26,21	3,14,79,75
जोड़—प्रेषणाएं	TOTAL—REMITTANCES . . .	9,72,44,40	9,48,06,21	9,26,74,07
				9,01,24,79
इंग्लैंड और भारत के बीच तकदी का अन्तरण—	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA—			
रिजर्व बैंक की मार्फत प्रेषणाएं	Remittances through the Reserve Bank . . .	3,07,51,26	1,31,77,47	1,65,60,80
रिजर्व बैंक में जमा—	RESERVE BANK DEPOSITS—			
रेलें	CIVIL . . .	..	..	..
	RAILWAYS . . .	—1,42,44,65	—1,03,47,10	—1,12,29,89
				—89,18,93
डाक और तार	POSTS AND TELEGRAPHS . . .	36,47,22	42,03,82	50,83,85
				50,48,22
रक्षा सेवाएं	DEFENCE SERVICES . . .	—9,82,10,93	—10,39,06,36	—10,57,26,70
				—11,03,50,79
जोड़—III—सार्वजनिक खाता—भुगतान	TOTAL — III — PUBLIC ACCOUNT—			
	DISBURSEMENTS	26,65,36,82	17,46,36,31	20,95,54,76
जोड़—(I+II+III)	TOTAL (I+II+III)	1,71,77,37,51	1,73,08,37,34	1,70,81,59,90
इति-अेष	Closing Balance	64,56,86	51,79,91	50,90,36
कुल जोड़	GRAND TOTAL	1,72,41,94,37	1,73,60,17,25	1,71,32,50,26
				1,83,96,90,94

GOVERNMENT OF INDIA

BUDGET

OF THE

**Railway Revenue and Expenditure of the
Central Government for
1969-70**

MINISTRY OF RAILWAYS, } B. MUKERJI
Dated the 24th November 1969 } *Financial Commissioner for Railways*

CONTENTS

	PAGES
1.—STATEMENT OF THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT FROM RAILWAYS	1051
2.—STATEMENT OF THE EXPENDITURE ON RAILWAYS MET FROM THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT	1052
3.—DISTRIBUTION OF RAILWAY'S SURPLUS	1053
4.—STATEMENT OF THE WORKS EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT ON RAILWAYS	1053
A.—RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND	1054
B.—RAILWAY REVENUE RESERVE FUND	1054
C.—RAILWAY DEVELOPMENT FUND	1055
D.—RAILWAY PENSION FUND	1055

1. Statement of the Revenue of the Central Government from Railways

(In thousands of Rupees)

HEADS OF REVENUE	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Increase(+) / Decrease(—) as compared with Budget 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
M—RAILWAYS—REVENUE					
LXIV-A & LXV-A—Indian Railways—					
Revenue Receipts—					
Passenger Earnings—					
Upper	28,81,70	31,38,00	29,00,00	—2,38,00	29,50,00
Third	223,82,69	246,62,00	237,00,00	—9,62,00	243,50,00
Other Coaching Earnings	39,46,40	43,00,00	46,00,00	+3,00,00	47,50,00
Goods Earnings	502,79,01	545,00,00	566,00,00	+21,00,00	600,00,00
Sundry Other Earnings	26,35,71	28,50,00	28,00,00	—50,00	30,50,00
TOTAL—EARNINGS	821,25,51	894,50,00	906,00,000	11,50,00	951,00,00
SUSPENSE	—3,11,23	—2,00,00	—3,85,00	—1,85,00	—4,20,00
Gross Receipts of Indian Railways	818,14,28	892,50,00	902,15,00	+9,65,00	946,80,00
LXIV-B & LXV-B—Other Miscellaneous Receipts —					
Miscellaneous Receipts	17,12	14,45	20,55	+6,10	17,67
LXVI—Subsidised Companies					
Government share of surplus profits etc.	4,21	4,76	10,72	+5,96	34,38
LXVII—Transfer from Railway Revenue Reserve Fund					
		..	..	..	..
TOTAL RECEIPTS	818,35,61	892,69,21	902,46,27	+9,77,06	947,32,05
†Includes earnings of worked lines	59,60	63,42	62,49	—93	63,51

2. Statement of the Expenditure on Railways met from the Revenue of the Central Government

(In thousands of rupees)

HEADS OF EXPENDITURE	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Increase (+) Decrease (—) as compared with Budget 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
M—RAILWAYS—EXPENDITURE					
83-A & 84-A—Working Expenses—					
(i) Ordinary Working Expenses					
(ii) Appropriation to Depreciation Reserve Fund	588,21,79	614,00,84	639,99,93	+ 25,99,09	665,34,92
(iii) Appropriation to Pension Fund	95,00,00	100,00,00	95,00,00	— 5,00,00	95,00,00
	9,93,00	9,93,00	9,90,00	— 3,00	9,90,00
*83-C—Payments to Worked Lines—					
(i) Net earnings	14,85	14,98	23,29	— 8,31	14,91
(ii) Rebate etc.	45	1,79	1,79		1,79
†83-B & 84-B—Other Miscellaneous Expenditure	5,55,58	6,56,21	6,99,75	+ 43,54	7,56,85
85.—Payments to General Revenues—					
(a) Dividend to General Revenues	141,52,96	152,00,25	151,33,53	— 66,72	159,01,19
(b) Deduct—amount met from Revenue Reserve Fund	— 31,52,92		— 10,01,22	— 10,01,22	..
86.—Subsidised Companies—					
Land	..	..	..	..	..
Subsidy	17,63	2,14	34	— 1,80	88
88.—Open Lines Works—					
Revenue	*9,32,27	9,00,00	8,98,86	— 1,14	8,40,00
87.—Appropriation from Railway Surplus—					
(i) Appropriation to Railway Revenue Reserve Fund	..	..	..	..	..
(ii) Appropriation to Railway Development Fund	..	1,00,00	..	— 1,00,00	1,91,51
(iii) Appropriation to Railway Depreciation Reserve Fund	..	..	..	..	..
TOTAL—EXPENDITURE	818,35,61	892,69,21	902,46,27	+ 9,77,06	947,32,05
†Includes— Appropriation from Revenue to Railway Pension Fund	7,00	7,00	10,00	+ 3,00	10,00

*Also takes note of the transactions in the Contingency Fund.

3. Distribution of Railways' Surplus

(In thousands of rupees)

	Accounts 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Surplus	..	1,00,00		1,91,51
Railway Development Fund	..	1,00,00	..	1,91,51
Railway Revenue Reserve Fund	..	..	..	..
Railway Depreciation Reserve Fund	..	..	..	..

4. Statement of the Works Expenditure of the Central Government on Railways

(In thousands of rupees)

HEADS OF EXPENDITURE	Accounts 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Increase (+) Decrease (—) as compared with Budget 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
MM—Capital—					
Railway Capital not met from Revenue— .					
131 & 132—Construction of Railways— .	135,94,13	143,00,00	134,07,67	—8,92,33	132,60,00
T—Deposits and advances—					
Works expenditure met from Railway Funds —					
Depreciation Reserve Fund	93,81,82	100,00,00	94,36,13	—5,63,87	95,00,00
Development Fund	19,51,01	20,00,00	19,59,03	— 40,97	19,00,00
M—Revenue—					
88—Open Line Works—					
Revenue	9,32,27	9,00,00	8,98,86	—1,14	8,40,00
GRAND TOTAL	258,23,23	272,00,00	257,01,69	—14,98,31	255,00,00

*Also takes note of the transactions in the Contingency Fund.

A—RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
*Opening Balance	**73,22,97	74,28,80	79,44,94	86,00,69	Appropriation from Depreciation Reserve Fund	93,81,82	100,00,00	94,36,13	95,00,00
Appropriation to De- preciation Reserve Fund	(a) 97,17,77	(b) 102,28,19	(c) 97,39,86	(d) 97,45,21	Closing Balance	79,74,55	79,80,58	86,00,69	92,29,73
Interest on Deprecia- tion Reserve Fund	@ 3,15,63	3,23,59	@ 3,52,02	3,83,83					
TOTAL	173,56,37	179,80,58	180,36,82	187,29,73	TOTAL	173,56,37	179,80,58	180,36,82	187,29,73

*Includes 7,83,93 (provisional) on account of Indian States Railways taken over from 1-4-1950.

**Excludes 4,53,25 due to transfer of expenditure erroneously booked under Development Fund (2,59,79) and Capital (1,93,46).

†Excludes 29,61 due to anticipated write back of the expenditure on restoration of Bhagalpur-Mandar Hill on E. Railway from Development Fund.

@Excludes on account of adjustment of arrear interest 64 in 1967-68 and 18 in 1968-69.

(a) Includes	2,17,77	debitable to Workshop Manufacture Suspense Account-CLW	(1,15,23)	I.C.F.	(41,59)	D.L.W.	(60,95)
(b) "	2,28,19	"	"	"	(63,75)	"	(43,55)
(c) "	2,39,86	"	"	"	(44,52)	"	(75,16)
(d) "	2,45,21	"	"	"	(45,27)	"	(77,00)

B—RAILWAY REVENUE RESERVE FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
*Opening Balance	(a) 44,70,03	(a) 21,31,25	(a) 12,19,62	(a) 1,28,52	Appropriation from Railway Revenue Reserve Fund—				
Appropriation to Rail- way Revenue Reserve Fund from Surplus etc.	..	..	..	..	(i) For Amortising Capital	2,15,63	1,36,08	1,18,14	28,26
Interest on Railway Revenue Reserve Fund	†(b) 1,18,14	(c) 88,17	†(d) 28,26	(e) 4,94	(ii) For making good the shortfall in Net Revenue for pay- ment of full divid- end	31,52,92	..	10,01,22	..
TOTAL	45,88,17	22,19,42	12,47,88	1,33,46	Closing Balance	(a) 12,19,62	(a) 20,83,34	(a) 1,28,52	1,05,20
					TOTAL	45,88,17	22,19,42	12,47,88	1,33,46

*Includes 172,29 lakhs (provisional) on account of Indian States Railways taken over from 1-4-1950.

†Excludes on account of adjustment of arrear interest of 52 in 1967-68 and 35 in 1968-69.

(a) Includes 31.45 lakhs on account of investments in shares of and loans of Branch Line Companies.

(b) " 2.06 lakhs on account of interest and dividend etc. on investment.

(c) " 0.99 " " " "

(d) " 1.26 " " " "

(e) " 1.26 " " " "

C—RAILWAY DEVELOPMENT FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget, Estimate, 1969-70		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Opening Balance	†8,41,74	..	†† 4,44,77	..	Appropriation from Development Fund	19,15,01	20,00,00	19,59,03	19,00,00
Appropriation to Development Fund—									
(i) Revenue Surplus	..	1,00,00	..	1,91,51	Repayment of Loans	..	..	..	..
(ii) Loans from General Revenues for—									
(a) Works Expenditure	11,20,06	19,00,00	15,14,26	17,08,49	Interest on Loans	23,69	1,23,84	82,91	1,59,53
(b) Interest on Loans	4,20	1,23,84	73,16	59,53					
Interest on Development Fund	18,62	..	9,75	..	Closing Balance	45,92	..	..	..
TOTAL	19,84,62	21,23,84	20,41,94	20,59,53	TOTAL	19,84,62	21,23,84	20,41,94	20,59,53

†Includes 245.37 lakhs due to transfer to Capital of the cost of certain works now assessed to be remunerative justifying their charge to Capital 0.53 lakh due to transfer of outlay on Open Line Works Revenue and 255.80 lakhs due to transfer to Depreciation Reserve Fund of expenditure erroneously charged to this Fund.

††Includes 398.85 lakhs due to anticipated transfer of certain works (Bhagalpur-Mandar Hill on Eastern C.T.C. on Northeast Frontier Gorakhpur-Katihar Microwave Communications on Northeastern Railways) now assessed to be remunerative justifying their charge to Capital.

*Adjustment of arrear interest of (—) 17 to 1967-68 and (+) 7 in 1968-69.

D—RAILWAY PENSION FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70		Accounts, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	Revised Estimate, 1968-69	Budget Estimate, 1969-70
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Opening Balance	†44,87,02	53,45,66	53,84,93	62,54,94	Appropriation from Pension Fund	5,33,53	5,35,05	6,14,18	6,29,11
Appropriation to Pension Fund	††(a) 10,82,89	(b) 10,30,00	††(c) 12,36,90	(d) 10,30,00					
Interest on Pension Fund	* 2,01,06	* 2,39,95	* 2,47,29	* 2,84,0	Closing Balance	52,37,44	60,80,56	62,54,94	69,39,87
TOTAL	57,70,97	66,15,61	68,69,12	75,68,98	TOTAL	57,70,97	66,15,61	68,69,12	75,68,98

†Includes 77.79 lakhs in 1967-68 and 147.49 lakhs proposed in 1968-69 by transfer from the State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who elected the pensionary form of retirement benefits before the close of the respective penultimate financial years.

††Includes 52.89 lakhs in 1967-68 and 206.90 lakhs proposed in 1968-69 by transfer from the State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who elected the pensionary form of retirement benefit during the course of the respective financial years.

*Excludes on account of adjustment of arrear interest of 35 in 1967-68 and 48 in 1968-69.

(a)	Includes 30,00	debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—C.L.W.	(10,69)	I.C.F.	(13,50)	& DLW	(5,81)
(b)	30,00	..	(10,71)	..	(13,67)	..	(5,62)
(c)	30,00	..	(10,52)	..	(12,88)	..	(6,60)
(d)	30,00	..	(10,68)	..	(12,81)	..	(6,51)

